

प्रश्नपत्र 1

अभ्यास 1

‘नदी की आत्मकथा’ को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. नदी का जन्म ऊँचे पहाड़ों की गोद में बर्फ के पिघलने से होता है।
2. नदी का जल पशु-पक्षियों की प्यास बुझाता है और किसान इसका उपयोग अपने खेतों को सींचने के लिए करते हैं।
3. उपयोगिता।
4. शहरों के बढ़ने, कारखानों की गंदगी, प्लास्टिक, कचरा और रासायनिक पदार्थों के नदी में बहाए जाने के कारण जल गंदला होने लगा है।
5. नदी बरसात में उफनकर (तेज बहाव के साथ) अपने दुःख को व्यक्त करती है।
6. नदी अपनी पीड़ा इसलिए व्यक्त करती है क्योंकि उसके स्वच्छ जल को मनुष्यों ने गंदा कर दिया है। उसमें कचरा, प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ डाले जा रहे हैं, जिससे उसका जल गंदला हो गया और जीव-जंतु मरने लगे।

नदी के सुधार के लिए कुछ लोग उसके किनारे सफाई अभियान चला रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन प्रयासों से नदी को फिर से स्वच्छ बनाने की आशा जागती है।

अभ्यास 2

7 नीचे दिए गए वक्तव्यों के लिए सही अक्षर A, B, C या D लाइन पर लिखिए। कौन-सा व्यक्ति यह सूचना देता है।

- a C
- b D
- c B
- d A
- e B
- f D
- g A
- h C
- i B

अभ्यास 3

‘समाज की प्रगति में महिलाओं की भूमिका’ आलेख को पढ़िए और नीचे दिए गए शीर्षकों पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

8.

- महिलाएँ शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और व्यवसाय में योगदान देकर देश के विकास को गति देती हैं।
- एक शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज को शिक्षित बनाती है, जिससे सामाजिक स्तर ऊँचा होता है।
- समाज में अभी भी लिंग भेदभाव जैसी समस्याएँ हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है ताकि समग्र विकास संभव हो सके।
- पुरुष और महिला दोनों के समान सहयोग से ही एक संतुलित और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है।

9. - महिलाएँ आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय योगदान देकर समाज को आगे बढ़ाती हैं।

- वे परिवार में बच्चों को संस्कार और शिक्षा देकर भविष्य के नागरिक तैयार करती हैं।
- आज महिलाएँ हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की उन्नति में भागीदार हैं।

अभ्यास 4

‘सोशल मीडिया का सच: ‘लाइक्स’ और ‘कमेंट्स’ के पीछे की असली दुनिया’ आलेख को पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

10.

B फोन के नोटिफिकेशन चेक करने से

11.

A सोशल मीडिया पर केवल खुशियाँ और सुंदर पक्ष ही दिखाए जाते हैं।

12.

C वे उदास महसूस करने लगते हैं और आत्मविश्वास खो देते हैं।

13.

B वर्तमान पल और वास्तविक अनुभव का

14.

B इससे व्यक्ति का मानसिक तनाव बढ़ता है।

15.

A जो हमें आईने में खुद को देखकर महसूस होता है।